

जो विद्यार्थी घर से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टेक्नॉलॉजी (प्रौद्योगिकी) का उपयोग करना

माता-पिता व देखभाल कर्ताओं के लिए जानकारी

घर से पढ़ाई कई प्रकार से की जाती है जिसमें ऑनलाइन व बिना इंटरनेट के संसाधन व वर्कशीट जैसी प्रकाशित सामग्री व संसाधन शामिल है।

NSW के हज़ारों विद्यार्थी जिन्हें आवश्यकता है उन्हें डिजिटल उपकरण किराए पर दिए जाएँगे जिससे वे COVID-19 महामारी के दौरान घर पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। NSW शिक्षा विभाग उन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द साधन प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिन्हें आवश्यकता है और प्राथमिकता Year 12 के विद्यार्थियों को दी जा रही है।

शिक्षा विभाग इस समय कई प्रकार के तरीके पता कर रहा है जिनसे उन विद्यार्थियों को घर से पढ़ाई करने की सुविधा मिलती रहे जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट या इंटरनेट नहीं है।

जहाँ वे कर सके हैं, स्कूलों ने उपकरण प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और जहाँ उनके लिए संभव है वहाँ स्कूल के उपकरण उधार दिए हैं। साथ ही, शिक्षा विभाग स्कूलों के पास उपलब्ध उपकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक उपकरण दे रहा है।

प्रिन्सिपल, शिक्षा विभाग को पढ़ाई के उपकरणों की संख्या व टेक्नॉलॉजी की आवश्यकताओं के बारे में सलाह दे रहे हैं। NSW के पब्लिक स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है और स्कूलों के निरंतरता सर्वेक्षण (Continuity Survey) के अंश के रूप में शिक्षा विभाग ने राज्य के 2,200 पब्लिक स्कूलों के प्रिन्सिपलों में से प्रत्येक से टेक्नॉलॉजी की सुविधाओं में कमियों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहा है।

हाई स्कूल सर्टिफिकेट (Higher School Certificate (HSC)) के विद्यार्थियों, विकलांग विद्यार्थियों, जिन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता है, गाँवों व दूर-दराज के समुदायों में रहने वाले विद्यार्थियों, वे युवा जिन्हें घर की देखभाल उपलब्ध नहीं है व वे जो निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी।

कुछ स्कूलों ने COVID-19 महामारी के दौरान, ऑनलाइन पढ़ाई में मदद देने के लिए पहले से ही अतिरिक्त उपकरण प्रदान किए हैं व स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करते रहेंगे।

शिक्षा विभाग, NSW के उन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को सहायता देती रहेगी जो अनेक तरीकों से दूरी से पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ इंटरनेट, मोबाइल या फ़ोन सेवाएँ नहीं हैं उस क्षेत्र में विद्यार्थियों को कागज़ों पर छपी हुई वर्कबुकें व पढ़ाई की किताबें दी जाएँगी।

यह एक करके एक हर स्कूल संबंधी फ़ैसला होगा, जो प्रिन्सिपल व शिक्षक अपने स्कूल के समुदाय के साथ मिल कर करेंगे, और शिक्षा विभाग कड़ी मेहनत कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस असाधारण समय में कोई भी विद्यार्थी इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए।

टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया स्कूल के प्रिन्सिपल को फ़ोन करें। यदि आपको अपना प्रश्न पूछने के लिए दुभाषिए की मदद की आवश्यकता है तो कृपया टेलिफ़ोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फ़ोन करें व अपनी भाषा में दुभाषिया माँगें। इस सेवा का कोई शुल्क नहीं है।